

वीकली वन लाइनर्स 17 फरवरी से 23 फरवरी 2020

फरवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट: भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में मिला 77वां स्थान

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित रिपोर्ट में भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77 वें और फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में 131 वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और द लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा तैयार की गई है।

- नॉर्वे, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण दर के मामलों में इंडेक्स में टॉप स्थान पर है - जिसके बाद दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड है। इस सूची में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और सोमालिया सबसे नीचे हैं।
- सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित और फ्लोरिशिंग इंडेक्स में बच्चों के पालन-पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूची जारी की जाती है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2030 लक्ष्य के हिसाब से अधिक कार्बन उत्सर्जन पर देशों को रैंक दी गई है

ESPN इंडिया अवार्ड्स की हुई घोषणा: जाने किसने जीता कौन-सा अवार्ड

वर्ष 2019 के ESPN इंडिया अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई। ESPN.in पुरस्कार कैलेंडर वर्ष के दौरान भारतीय खेलों में खिलाड़ी या टीम द्वारा किए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। क्रिकेट के ESPNcricinfo के वार्षिक पुरस्कारों में पहले से ही शामिल होने के कारण इसे इन पुरस्कारों में शामिल नहीं किया जाता है। ईएसपीएन अवार्ड्स विभिन्न खेलों में कुल 10 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं।

यहां ईएसपीएन इंडिया अवार्ड्स 2019 के विजेताओं की पूरी सूची दी जा रही है:-

S. No.	पुरस्कार	विजेता
1	स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर (महिला)	पीवी सिंधु (बैडमिंटन)
2	स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर (पुरुष)	सौरभ चौधरी (पिस्टल शूटर)
3	इमर्जिंग स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर	दीपक पुनिया (फ्रीस्टाइल रेसलर)
4	कोच ऑफ द ईयर	पुलेला गोपीचंद (बैडमिंटन)
5	टीम ऑफ द ईयर	मनु भाकर-सौरभ चौधरी (10 मीटर एयर पिस्टल)
6	लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	बलबीर सिंह सीनियर (हॉकी)
7	कमबैक ऑफ द ईयर	कोनेरू हम्पी (शतरंज)
8	डिफरेंटली एबल एथलीट ऑफ द ईयर	मानसी जोशी (बैडमिंटन)

9	मोमेंट ऑफ द ईयर	पीवी सिंधु की विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जीत
10	द करेज अवार्ड	दुती चंद (एथलीट)

बर्लिन में 20वें लॉरियस अवार्ड्स की हुई घोषणा, सचिन को बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का मिला खिताब

- लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है, जिसमें साल के दौरान उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी और टीमों को सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1999 में लॉरियस स्पोर्ट फ़ॉर गुड फ़ाउंडेशन के संस्थापक डेमलर और रिकेमॉन्ट द्वारा की गई थी।
- प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार पिछले 20 वर्षों से दिए जा रहे हैं, जिसे खेल जगत में सर्वश्रेष्ठ माना-जाता है। यह पुरस्कार समारोह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया।

यहाँ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के विजेताओं की पूरी सूची दी जा रही है:-

S. No.	पुरस्कार	नाम विजेता
1	लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर:	लुईस हैमिल्टन और लियोनेल मेस्सी
2	लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर	सिमोन बाईल्स
3	लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर	दक्षिण अफ्रीका की पुरुष रग्बी टीम
4	लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट	सचिन तेंदुलकर- को टीम इंडिया द्वारा कंधों पर उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाना
5	लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर	ईगन बर्नल
6	लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर	सोफिया फ्लॉर्श
7	लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर विथ ए डिसेबिलिटी	ओक्साना मास्टर्स
8	लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर:	क्लो किम
9	लॉरियस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड:	डिर्क नोविट्ज़की
10	लॉरियस अकैडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड	स्पेनिश बास्केटबॉल फेडरेशन
11	लॉरियस स्पोर्ट फ़ॉर गुड अवार्ड	साउथ ब्रॉक्स यूनाइटेड

राष्ट्रीय समाचार

- भारत में पहली अप्रैल से दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि

- भारत में अब यूरो-IV ग्रेड के स्थान पर यूरो-VI पेट्रोल की ही आपूर्ति जाएगी है.
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) की निर्माण इकाई, मणिपुर के तामेंगलॉंग जिले में मकरू नदी पर 33 मंजिला इमारत के बराबर 100 मीटर लम्बे भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है.
 - आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) के शुरू होने की चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016, को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास को मजबूत करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी.
 - नई दिल्ली में 'भारतीय वस्त्र एवं शिल्प के लिए उभरते अवसर' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा एवं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने की।
 - इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह तक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन कर दिया जाएगा.
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है.
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग गठन किए जाने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए कार्य करेगा.
 - दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली के "इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे" को भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक-फ्री (प्लास्टिक रहित) हवाई अड्डा घोषित किया है.
 - कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में "कला कुंभ" प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी भौगोलिक संकेत (GI) शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है.
 - भारतीय रेलवे का दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ज़ोन, "ऊर्जा तटस्थ" (energy neutral)

पर रेलवे स्टेशन का संचालन वाला देश का पहला जोनल बन गया है.

- सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में इंडिया-2020 और हिन्दी भाषा में भारत-2020 वार्षिकी का विमोचन किया.

SBI CLERK PRELIMS

Memory Based Package

- ◆ Based on Papers of 22nd Feb 2020
- ◆ (1+2) Full Length Mocks

Bilingual

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

- बांग्लादेश में बांग्ला भाषा आंदोलन में जान गवाने वालों शहीदों की याद में 21 फरवरी को "शहीद दिवस" के रूप में मनाया गया है जिसे 'अमर एकुशे' के रूप में भी जाना जाता है.
- आयरलैंड के प्रधान मंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
- पाकिस्तान जून 2020 तक FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। यह फैसला पेरिस में 16 से 21 फरवरी चली मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखने वाली ग्रुप की बैठक और प्लेनरी के खत्म होने के बाद लिया गया.
- पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कूज मिसाइल Ra'ad-II का सफलतापूर्वक परिक्षण कर लिया है.
- अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए "बेजोस अर्थ फंड" शुरू करने का ऐलान किया है.

- नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना 70 वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है।
- अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया हैं और दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे।
- बांग्लादेश और नेपाल ने एक-दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए, एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति जताई हैं।
- विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर जर्मनी में 70 वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे।
- ऋषि सुनक को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पाकिस्तानी चांसलर साजिद जाविद की जगह पर की गई है।

राज्य समाचार

- हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में अटल किसान - मजदूर कैंटीन खोलने का ऐलान किया। सभी मंडियों और चीनी मिलों पर इन कैंटीनों में किसानों और मजदूरों को 10 रुपये के किफायती मूल्य पर सस्ता एवं अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा हैं।
- त्रिपुरा में भारतीय चाय बोर्ड ने त्रिपुरा चाय विकास निगम (Tripura Tea Development Corporation - TTDC) के सहयोग से "Run for India Tea" का आयोजन किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राजधानी कोच्चि में "Yodhav" (योद्धा) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की।

- बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में 'प्यार का पौधा' अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति का अधिकारिक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल को उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह को पांच दिन कार्य दिवस करने का ऐलान किया है।

समझौते/समझौता ज्ञापन

- एचडीएफसी बैंक, मास्टरकार्ड और SAP कॉन्सुर ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को खर्च प्रबंधन सेवा देने के लिए समझौता किया है।
- गुजरात सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ MSME क्षेत्र के उद्यमियों को आसान और जल्दी ऋण मंजूरी देने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय कार्यक्रम "अटल भू-जल योजना

(ABHY): राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम" का सहयोग करना है.

बैंकिंग / अर्थव्यवस्था / व्यापार समाचार

- राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) ने JSW स्टील को 19,700 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना के साथ दिवालिया हो चुकी भूषण पावर एंड स्टील का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है.
- अमेरिका की थिंक टैंक "वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू" की रिपोर्ट के अनुसार, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ साल 2019 में 5 वीं सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है.
- अमेरिका की रेटिंग एजेंसी Moody's ने भारत में वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ पूर्वानुमान को 6.6% से घटाकर 5.4% और अगले वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए विकार दर अनुमान को 6.7% से घटाकर 5.8% कर दिया है.

नियुक्तियां/इस्तीफे

- महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव होंगे.
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारियों अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है.

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा संजय कोठारी को नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है.
- ऑस्ट्रेलिया ने बैरी ओ फ्रेल को भारत में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह हरिन्द्र सिद्धू का स्थान लेंगे जो 2016 से इस पद पर कार्यरत हैं.
- GoAir ने जेट एयरवेज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनय दूबे को अपना नया CEO नियुक्त किया है.

रक्षा समाचार

- बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कुल 12 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया.
- चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत ने पहली एकीकृत त्रि-सेवा कमान की स्थापना करने की योजना की घोषणा की। ये एकीकृत त्रि-सेवा कमान समूचे देश की वायु सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी.

शिखर सम्मेलन और सम्मेलन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 13 वें सम्मेलन (COP) का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय "Migratory species connect the planet and we welcome them home" (इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है) है.

- गुजरात के केवडिया में कोयला क्षेत्र पर मंथन करने के लिए "चिंतन शिविर" आयोजित किया गया. ये सत्र कोयला क्षेत्र को आगे ले जाने के उपायों पर फोकस था.
- गोवा के पणजी में डिफिकल्ट डायलॉग्स का 5 वां संस्करण शुरू हो गया है. वर्ष 2020 का डिफिकल्ट डायलॉग्स "State of Law" पर फोकस है.
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया.
- स्वीडन के स्टॉकहोम में 19 से 20 फरवरी, 2020 को सड़क सुरक्षा पर मंत्रिस्तरीय वैश्विक सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा.
- तेलंगाना सरकार हैदराबाद में 17 फरवरी से 19 फरवरी, 2020 तक चलने वाली बायो-एशिया समिट 2020 का आयोजन कर रही है.
- कृषि विकास के लिए धन पर विचार करने वाली - International Fund for Agricultural Development (कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष) की 43 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक इटली के रोम में आयोजित की गई.
- बीसीसीआई ने साल 2020 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 13 वें संस्करण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.
- एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने मलेशिया के कुआलालंपुर में घोषणा की है कि भारत साल 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा.
- केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने भारत में 2 नवंबर 2020 से शुरू होने वाले फीफा अंडर -17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 के 5 मेजबान शहरों के नामों की घोषणा की.
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation - AIFF) को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के 'ग्रासरूट चार्टर ब्रांज लेवल' का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई है.
- भारत साल 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (International Hockey Federation-FIH) ने यह घोषणा की.
- भारत की कोनेरू हम्पी ने अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित केयर्न्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है.
- इस साल टोक्यो में आयोजित किए जाने ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के आधिकारिक आदर्श वाक्य: "यूनाइटेड बाय इमोशन" को जारी किया है.
- नई दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 शुरू हुई.
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर 4 चार साल का बैन लगा दिया है। उन पर सोनीपत के SAI सेंटर में आयोजित दूसरी नेशनल जेवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप 2019 के दौरान नमूना देने से बचने और अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश के चलते बैन किया गया है.

रैंक और रिपोर्ट

- हिंदी साल 2019 में 615 मिलियन से अधिक लोगो द्वारा बोली जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है.

खेल समाचार

- न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट श्रृंखला के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कायम किया.

- बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण दिन

- अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी 2000 के बाद से हर साल 21 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
- विश्व स्तर पर हर साल 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस अर्थात World Day of Social Justice मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम: "Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice"
- हर साल 19 फरवरी को Soil Health Card Day यानि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है।
- हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पैंगोलिन (World Pangolin Day) दिवस मनाया जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications - DoT) ने भारत सरकार के सहयोग से शिक्षाविदों और उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर टेलिकम्युनिकेशन कार्यक्रम '5G Hackathon' शुरू किया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि इसरो साल 2020-21 में 10 पृथ्वी निगरानी उपग्रह (Earth Observation Satellites) लॉन्च करेगा।

निधन

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Former Federation of Indian Chambers of

Commerce & Industry - FICCI) के पूर्व अध्यक्ष वी एल दत्त का निधन हो गया।

- कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी टेस्लर का निधन हो गया है।
- मैनेचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व गोलकीपर हैरी ग्रेग का निधन हो गया है।
- प्रसिद्ध महिला गोल्फर मिक्की राइट का निधन हो गया है।
- प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पाल का निधन हो गया है।

विविध समाचार

- नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 'हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका-इंडस डायनिंग एक्पीरियंस' पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
- अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में भारतीय चित्र साधना द्वारा चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन जाएगा। इस फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण भारतीय सिनेमा में 'भारतीय' कहानियाँ के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (National Institution for Transforming India - नीति आयोग) द्वारा एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स (API) इंडस्ट्री पर एक बैठक आयोजन किया गया।
- आज से IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी। ये रेल सेवा तीन ज्योतिर्लिंगों : इंदौर के समीप ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी।
- केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख लक्ष्मणभाई मंडाविया ने तमिलनाडु में रामेश्वरम के धनुषकोडी में 50 मीटर ऊंचे आधुनिक लाइटहाउस की आधारशिला रखी।

- दिल्ली पुलिस ने कैब में सफर करने वाले नागरिकों की बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी "Uber" के साथ अपनी "Himmat Plus App" को एकीकृत किया है.
- केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (The Institute for Defence Studies and Analyses) का नाम बदल कर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान करने का निर्णय लिया है.
- डी-मार्ट के नाम से कारोबार करने वाली एवेन्सू सुपरमार्ट्स के संस्थापक राधाकिशन दमानी, 17.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं.



महत्वपूर्ण तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड.
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष: थॉमस बाख.
- अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: थियरी वेल
- हॉकी इंडिया के अध्यक्ष: मोहम्मद मुश्ताक अहमद
- फीफा महिला मुख्य फुटबॉल अधिकारी: सराय बरमान
- ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष: प्रफुल्ल पटेल
- केंद्रीय रेल मंत्री: पीयूष गोयल

- गुजरात सीएम: विजय रूपानी; राज्यपाल: आचार्य देव व्रत; राजधानी: गांधीनगर
- केंद्रीय कपड़ा मंत्री: स्मृति जुबिन ईरानी
- यूपी के वर्तमान सीएम: योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: रविशंकर प्रसाद
- केंद्रीय जल मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावत
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: रामविलास पासवान
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर
- मणिपुर की राजधानी: इंफाल; मणिपुर के राज्यपाल: नजमा हेपतुल्ला
- यूनाइटेड कांड के प्रधान मंत्री: बोरिस जॉनसन
- जर्मनी की राजधानी: बर्लिन; जर्मनी की मुद्रा: यूरो
- बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका.
- अफगानिस्तान की राजधानी: काबुल; मुद्रा: अफगान अफगानी
- नेपाल के प्रधान मंत्री: केपी शर्मा ओली
- नेपाल की राजधानी: काठमांडू; नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपया
- अमेजन के CEO: जेफ बेजोस
- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री: इमरान खान
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है
- माइकल डी हिगिंस आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं
- महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
- श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष: मोहन प्रसाद थपलियाल
- बिहार के राज्यपाल: फागू चौहान, मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार
- केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: बिप्लव कुमार देब
- हरियाणा के मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर
- विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड रॉबर्ट मालपास
- आवास विकास वित्त निगम एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक: आदित्य पुरी
- मास्टरकार्ड के अध्यक्ष दक्षिण एशिया: पोरश सिंह

- ऑस्ट्रेलिया राजधानी: कैनबरा; मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के। चंद्रशेखर राव
- स्वीडन की राजधानी: स्टॉकहोम; स्वीडन की मुद्रा: स्वीडिश क्रोना
- केंद्रीय कोयला और खान मंत्री: प्रल्हाद जोशी
- कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष: अनिल कुमार झा
- इसरो के निदेशक: के सिवन, मुख्यालय: बेंगलुरु; स्थापित: 1969.

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions

SBI CLERK
MAINS

25+ TOTAL TESTS | eBOOKS